

June 14, 2023

BSE Limited The National Stock Exchange of India Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Ref.: Indus Towers Limited (534816 / INDUSTOWER)

Sub.: Newspaper publication of Notice for transferring Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Notice published today i.e. June 14, 2023, for the attention of Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of IEPFA in accordance with the requirements of Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, in the following newspapers:

1. Mint in English; and

2. Hindustan in Hindi.

This is for your kind information and records.

Thank you,

Yours faithfully,

For Indus Towers Limited

Samridhi Rodhe Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above





#### **TWEETS & QUOTES**



Vinod Aggarwal
President, SIAM

All the segments viz passenger vehicles, two-wheelers & three-wheelers have posted growth in double-digits in May 2023, compared to May 2022



Raghuram Rajan
Former governor, RBI
The big problem when you have low inflation is really a political one for the central banks—there is some stimulus you could do, which you're not doing. And therefore central banks come under pressure



Ajay Banga President, World Bank I am trying to get away from bespoke stuff to scalable, replicable things



Clara Shih
@clarashih
CEO, Salesforce AI

Every CEO needs a gen AI plan
but there's a trust gap
between the data security
companies' need and how
LLMs (large language models)

# Trai asks telcos to use Al to stop spam

he Telecom Regulatory Authority of India has mandated that telcos deploy AI and ML filters within 30 days to block unsolicited calls and messages, commonly referred to as spam.

In an order issued Tuesday, the regulator has said that all telcos have to deploy Artificial Intelligence and Machine Learning based systems capable of constantly evolving to deal with new signatures, new patterns and new techniques used by unregistered telemarketers.

Under this order, telcos will have to share details of spam callers with other carriers using blockchain technology thus creating a common database. The telcos were supposed to have begun deployment of the AI and ML systems from l May.

GULVEEN AULAKH



SC backed the Delhi govt's ban on bike taxis. михт

# Delhi govt plans to impound bike taxis

ew Delhi authorities will start impounding the bike taxis of companies such as Uber and local rival Ola if they do not cease operations in line with a court order backing a ban on them, a senior government official said. The Supreme Court on Monday backed the Delhi government's ban on bike taxis in a setback for the US ride-hailing company Uber which had legally challenged authorities to continue offering the services. The government has argued that bike taxis violate local city laws that require them to have a licence to offer such services.

# Electricity grid, rig operators race to minimize cyclone hit

Oil producers including state-run ONGC are also preparing for cyclone landfall

Rituraj Baruah

rituraj.baruah@livemint.com NEW DELHI

s cyclone Biparjoy heads for landfall on the Gujarat coast on 15 June, power grid and oil rig operators in the region are rushing to minimize the impact on their operations.

A top official with a power transmission company, who did not want to be named, said that stakeholders in the power segment are prepared and are following the standard operating procedure for such events as directed by the Central Electricity Authority (CEA) and National Disaster Management Authority (NDMA).

Power transmission companies including state-run Power Grid Corp are in touch with the Union ministry of power over the required preparedness, said people in the know.

Oil producers including state-run ONGC having rigs in the Arabian Sea are also preparing for the landfall of the cyclone. "We are evacuating the non core personnel from the drill ships in Arabia sea," said an ONGC official.

The power ministry in a statement said that Power Grid is closely monitoring the weather conditions and its transmission system regularly, and 24X7 control rooms have been set up at Man-

esar and Vadodara.
The ministry also said that the National Load Despatch Centre (NLDC) is continuously monitoring the grid supply for variations in load or

generation to take timely action to ensure stable operation of the grid and also for alternative supply through other transmission lines in the best possible manner.

The Indian Coast Guard evacuated 50 person-



The Indian Coast Guard carries out evacuation operation at Okha, off Gujarat coast, as part of preventive measures before the expected landfall of cyclone Biparjoy on Thursday.

nel from an oil rig off Gujarat's coast named 'Key Singapore', which is owned by Dubai-based Shelf Drilling and is working for Cairn Oil & Gas. Acknowledging the rescue efforts, the ministry of

petroleum and natural gas tweeted:
"Splendid teamwork by @India-CoastGuard
@DghIndia &
@IndianOilcl in
evacuating 50 personnel from Key

Singapore, a Vedanta Oil Rig, off Dwarka Coast. More than 12 sorties through #CycloneBiparjoy shows commitment of @DefenceMinIndia safeguarding citizens always #CycloneBiparjoy." The rescue efforts and preparedness gain significance after 86 workers in the Arabian Sea died during Cyclone Tauktae in May 2021, leading to suspension of three officials of ONGC.

Queries sent to ONGC and Power Grid remained unanswered till press time.

Mrutyunjay Mohapatra, director-general of India Meteorological Department (IMD) on Tuesday told reporter that Biparjoy may cause extensive damage and it is likely to impact Kutch, Devbhoomi Dwarka, and Jamnagar the most. The cyclone could lead to extremely heavy rainfall (over 20 cm) at isolated places in Kutch, Devbhoomi Dwarka and Jamnagar districts.

Biparjoy is predicted to cross Saurashtra and Kutch coasts between Mandvi and Karachi near the Jakhau Port (Gujarat) on 15 June as a very severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed of 125-150 kmph.

### Default settlement draws criticism

wo of bank employee unions urged the Reserve Bank of India to review and withdraw its recent decision to allow compromise settlements for wilful defaulters saying that such a move would hurt the integrity of the banking system. Last week, the central bank released a framework for lenders governing technical write-offs and compromise settlements, including those classified as fraud or wilful defaulters. Compromise settlement refers to an arrangement with the borrower to fully settle the lender's claim upfront, which may or may not include a complete recovery of dues.

A wilful defaulter is a borrower who has defaulted in meeting payment or repayment obligations to the lender despite having the capacity to do so.



Dorsey has made allegations that the government threatened to shut down Twitter. PTI

## Govt calls Dorsey's claims 'baseless'

witter co-founder Jack Dorsey has made allegations that the government threatened to shut down Twitter unless it complied with orders to restrict accounts during farmers' protests. However, the government has denied these allegations, dismissing them as an "outright lie"

Refuting the allegations, minister of state for electronics and information technology Rajeev Chandrasekhar said that Dorsey's Twitter regime "had a problem accepting the sovereignty of Indian law...It behaved as if the laws of India did not apply to it."

### FUTURE IS HERE

#### यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नौएडा Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

### सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार, गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में अंकित है–

पत्रांक :- वाई.ई.ए./भूलेख/तह0-एस0के०जी०/407/2023

दिनांकः 13.06.2023

			Hack -	वाइस पाक)		
क्रम	खाता	खसरा	गाटे का	तहसील की	तहसील की	काश्तकार का नाम
सं0	संख्या	संख्या	कुल क्षेत्रफल	आख्यानुसार	आख्यानुसार	
			(हे0 में)	काश्तकार का	काश्तकार का	
				भाग	हिस्सा	
1	338	1450	0.4970 ਵੇਹ	में से	0.1035 हे0	वेदी पुत्र धन्नी व श्यौदान पुत्र जसरथ
						Δ

पत्रांक	ज्ञ :- वाई	.ई.ए. / भू	लेख / तह0—वी0	दिनांकः 13.06.2023		
				r)		
क्रम	खाता	। खसरा गाटे का तहसील की		तहसील की	काश्तकार का नाम	
सं0	संख्या	संख्या	कुल क्षेत्रफल	_	आख्यानुसार	
			(हे० में)	काश्तकार का	काश्तकार का	
				भाग	हिस्सा	
1	28	474/3	1.0470	1/4 भाग	0.2618	ओमप्रकाश पुत्र अमर सिंह नि0 भुन्नातगा
2	28	474/3	1.0470	में से	0.1986	चन्दन सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 भुन्नातगा
3	14	474/1	/1 1.3080 में से		0.5000	समीन गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता नि0 डी—75,
						सै—30 नोएडा

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिवस के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय / सी०आर० सैल में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

Have fun with facts

0.2617

1/4 भाग

1/3 भाग

विशेष कार्याधिकारी

जयप्रकाश पुत्र अमर सिंह नि० भुन्नातगा

गिरवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नि0 भून्नातगा

### CENTRAL RAILWAY E-Auction for the NFR CONTRACT

The power ministry said that the

National Load Despatch Centre is

monitoring the grid supply for

variations in load or generation

1. NGP-NFR-SB-23-2/RDN Assets Start 24.06.2023 at 1300 Hrs. / End at 24.06.2023 at 1330 Hrs. 2. NGP-NFR-PnIL-23/Cloak Room

2. NGP-NFR-PnU-23/Cloak Room Start 24.06.2023 at 1300 Hrs. / End at 24.06.2023 at 1330 Hrs. For Detailed information kindly visit www.ireps.gov.in

DRM(C)/Nagpur RailMadad Helpline 139

### CENTRAL RAILWAY

e-Tender Notice No.: 32-2023-GSU-ABS-15F0B Date: 12.06.2023

Name of Work: "Provision of Telecom passenger amenities and Shifting of Signal & Telecom assets in connection with" Construction of 12 meter wide Foot-Over-Bridge under Amrit Bharat Scheme at 15 locations (BZU, AMF, KATL, PAR, JNO, GNQ, MTY, GDYA, BPQ, CD. SEGM, PLO, DMN, NRKR, HGT) of Nagpur Division". a. Tender Cost: Rs. 42777550.98/- b. Earnest Money: Rs. 363900.00/- c. Cost of Tender booklet: 0.00/-. d. Date & time of closing of Tender: 06/07/2023 at 15:00 Hrs. e. Details on Railway Website: www.ireps.gov.in Sr.DSTE(GSU) NGP

RailMadad Helpline 139

# MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH SERVICES CORPORATION LTD.

(A Government of Madhya Pradesh Undertaking)
Oil Fed Building, 01, Arera Hills, Bhopal
URL: https://mpphscl.mp.gov.in, PHONE: 0755-2578915
Dated: 13.06.2023

### TENDER NOTICE

Tenders for following item shall be floated on website and portal from 12.06.2023 to next 30 days:-

- Online Tender Ref. No.T-457/MPPHSCL/Pyrethrum Extract 2%/RC/2023, uploaded on 12.06.2023 (Portal and Website).
- Tender(S) for Various Drugs.
- 3. Tender(S) for Various Consumable.

All Prospective bidders are requested to visit "www.mptenders.gov.in, https://mpphscl.mp.gov.in and https://gem.gov.in" for further details.

M.P. Madhyam/110360/2023 CGM (Technical)



### NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar (U.P)
Website: www.noidaauthorityonline.com

### E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://etender.up.nic.in. Please ensure to see these website for any changes/amendments & corrigendum etc.

Sr. No.	Job Number	Name of Work	Amount (Rs.)	Publishing
(1)	(PH-1)/E-T/	Cleaning & Desilting taking out of debris for drain/culvert from Sector-50, Vill- Harola to Sec-19 (Length 1.70Km), Noida	273.22 Lakh	5 <sup>th</sup> Time

The above tenders can be uploaded From dated 14/06/2023 to 20/06/2023 upto 5.00 PM. Pre-Qualification shall be opened/downloaded on dated 21/06/2023 at 11.00 AM.

Office Sector-94 Dy. GM / Sr. Project Engineer (Public Health) NOIDA

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

### INDUS TOWERS LIMITED CIN: L64201HR2006PLC073821

Regd. Office: Building No. 10, Tower A, 4<sup>th</sup> Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333 Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com NOTICE

Transfer of Equity Shares of Indus Towers Limited to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"

This Notice is published pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"). The Act and the Rules provide for the mandatory transfer of Equity Shares, in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for a

Shares, in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to IEPF.

Adhering to the aforesaid requirements, the Company has communicated individually to such Shareholders whose dividends remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years commencing from the Financial Year 2015-2016 (Final Dividend 2015-16) requesting them

to claim the same by September 14, 2023, by following the procedure laid down in the correspondence sent to them on June 13, 2023.

In the interest of the Shareholders, e-mail communication has also been sent to those Shareholders whose e-mail ids are registered with the Company. The Shareholders who do not have their email ids registered may note that the requisite details of such shares which are liable to be transferred to IEPF along with the procedure for claiming the same, is uploaded on the website of the Company as stated hereunder. In the absence of receipt of a valid claim by the Shareholders within the

mentioned timeframe, the Company will transfer the said shares to IEPF. Further, the Shareholders holding Equity Shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the original Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in the DEMAT accounts opened by the IEPF Authority with NSDL and CDSL. Upon such issue, the original Share Certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of such shareholders, holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of the IEPF Authority as indicated hereinabove shall be effected by the Company through the respective depository by way of corporate action.

The Shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such Equity Shares which are liable to be transferred to IEPF on its website at <a href="https://www.industowers.com">www.industowers.com</a>. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website are treated as notice in respect of issue of the duplicate Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

the Rules.

Further dividend/ benefit, if any, in respect of Equity Shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF. On transfer of the dividend and shares to IEPF, the Shareholders may claim the same by making an application to IEPF Authority in Form IEPF-5, as per the Rules. The said form is available on the Company's website

and on the website of IEPF at <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a>. In view of the above, the concerned Shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends before September 14, 2023 by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filed indemnity bond (available on the website of RTA and the Company) failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/ unclaimed for seven consecutive years to the IEPF Authority in accordance with applicable provisions without any further notice.

applicable provisions without any further notice.
In case the Shareholders have any queries, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032. Ph. No.: +91 40 67162222 Toll Free No.: 1800-309-4001. Email id: einward.ris@kfinfech.com. Website: www.kfintech.com.

For Indus Towers Limited

Sd/Place: Gurugram Samridhi Rodhe
Date: June 13, 2023 Company Secretary & Compliance Officer



474/3

474/2

02

1.0470

0.0500

on Sundays

A guiz on the week's development.

Catch the latest column of



# जीएसटी रिटर्न फॉर्म में सभी विवरण भरे मिलेंगे

नर्ड दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्युरो। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है। इसके लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की तर्ज पर जीएसटी करदाताओं को वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) जैसी सुविधा देने की तैयारी है। इसे इस साल के अंत तक शुरू किया जा सकता है।

आयकर की तर्ज पर बदलाव : फिलहाल, आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को एआईएस की सविधा दी गई है। इस वार्षिकी रिपोर्ट को आयकर विभाग की वेबसाइट या एआईएस एप से डाउनलोड किया जा

एआईएस में रिटर्न भरने से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां होती हैं। जैसे अलग-अलग स्रोतों से संबंधित वित्त वर्ष के दौरान हुई कुल कमाई, कर पंजीकृत हैं देश में जीएसटी के तहत

की जीएसटी चोरी पकड़ी थी बीते वर्ष में

### जीएसटी रिटर्न के लिए ये नई सविधाएं मिलेंगी



मुकदमों में कमी आएगी

अधिकारियों का कहना है कि इन नई सुविधाओं की शुरुआत होने से जीएसटी संबंधी मुकदमों में कमी आएगी। नियमों का पालन बेहतर होगा और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इन सविधाओं से खास तौर पर छोटे करदाताओं को ज्यादा फायदा होगा।

देनदारी इत्यादि। इससे करदाता आसानी से अपनी पूरी कमाई का मिलान कर पाते हैं। एआईएस मदद से सामान्य

आयकरदाता किसी विशेषज्ञ की मदद लिए बिना खुद से ही रिटर्न दाखिल

### बिना इंटरनेट यूपीआई से रुपये भेज सकेंगे

आज भी कीपैड फोन का इस्तेमाल

होता है। इस सेवा से ग्राहक पुरे भारत

में किसी को भी भगतान कर पाएगा।

सुविधानुसार चयन कर सकते हैं।

एजें सी।

जीएलए ने शीर्ष

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 'यूपीआई-123पे' सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक बिना इंटरनेट किसी को भी भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा को शुरू करने वाला पीएनबी सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है।

बैंक के एमडी और सीईओ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में

### घरेलू हवाई किराये में औसत गिरावट

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-श्रीनगर सहित 10 घरेल मार्गे पर कल औसत हवाई किराए में कमी आई है और यह रुझान आने वाले सप्ताहों में भी जारी रहने की संभावना है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

जिन मार्गों पर गिरावट आई है, उनमें दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, दिल्ली-लेह, लेह-दिल्ली, मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-पुणे, पुणे-दिल्ली, अहमदाबाद-दिल्ली और दिल्ली-अहमदाबाद शामिल हैं। किराये में उछाल पिछले महीने गो फर्स्ट के संचालन वाले मार्गों पर देखी गई है।

### बैंक खाते में संख्या की जगह नाम का इस्तेमाल

नई दिल्ली, एजेंसी। ऐसे करना होगा इस्तेमाल: सबसे पहले बैंक के ग्राहकों को आईवीआर इंडियन ओवरसीज बैंक ने नंबर 9188123123 डायल करना 'मेरा खाता मेरा नाम' नाम से नई सविधा होगा। इसके बाद लाभार्थी का चयन शुरू की है। इसके तहत बैंक के ग्राहक खाता संख्या के रूप में कोई भी नाम करना होगा। फिर लेनदेन को सत्यापित इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे करना होगा। ग्राहकों को यह सेवा कई देश में आईओबी के सभी 49 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। ग्राहक कार्यालयों में उपलब्ध होगी।

63143 +418.45 18716 +114.65

### तनिष्क ने गोल्ड एक्सचेंज पॉलिसी पेश की

**नर्ड दिल्ली।** ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपनी संशोधित गोल्ड एक्सचेंज पॉलिसी पेश की है। इसमें उपभोक्ताओं को नए डिजाइन के साथ पुराने सोने को बदलने करने का अवसर मिलेगा। 20 कैरेट और उससे अधिक के पुराने सोने को 100 फीसदी मूल्य के साथ बदला जा सकता है। सभी स्टोर पर सुविधा मिलेगी।



शेयरबाजार।

### एमआरएफ का शेयर एक लाख पर पहंचा

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। टायर कंपनी एमआरएफ का शेयर मंगलवार को दिन में कारोबार के दौरान एक लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

पहली बार किसी भारतीय कंपनी

का शेयर एक लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंचा है। बीएसई पर एमआरएफ का शेयर दिन में कारोबार के दौरान 1.00.300 रुपये तक चला गया। यह इसका 52 सप्ताह का उच्च स्तर है।

नई दिल्ली, एजेंसी। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म कर दी है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद बडी संख्या में महिला कर्मचारियों ने इस्तीफे देने शरू कर दिए हैं।

कोरोना महामारी के दौरान टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी थी। हालांकि, अब कंपनी का मानना है कि स्थिति लगभग सामान्य हो गई है, ऐसे में कर्मचारियों को ऑफिस लौटना चाहिए।

टीसीएस के एचआर प्रमुख मिलिंद लक्कड़ के मुताबिक घर से काम करने की सुविधा बंद करने के बाद महिला कर्मचारियों के अधिक इस्तीफे हुए हैं। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं लेकिन यह प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि टीसीएस में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम इस्तीफा देती हैं। हालांकि, अब इस्तीफा देने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। टीसीएस में पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 20 प्रतिशत कर्मचारी कम हए हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष कर्मचारी शामिल हैं।



21.

तिरथर्ल

सैक्टर—29

तिरथली

446

446

3.0280

3.0280

### यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर—201308 (उ०प्र०) वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

दिनांक : 13.06.2023

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/324/2023

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर निम्न काश्तकारों से भमि कय किया जाना प्रस्तावित है-

	क्रय किया जाना <b>क्टर 28 ग्राम</b>			ग्राम तिरथ	ाली, करौली बांगर, सैक्टर 32 ग्रा	म चकवीरमपुर	, वीरमपुर
क्रम सं0	ग्राम का नाम / सैक्टर / सड़क	खाता संख्या	गाटा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	चकवीरमपुर सैक्टर–32	09	33	1.8300	औंकार पुत्र खिल्लू सिंह निवासी ग्राम चकवीरमपुर परगना व तहसील जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	में से	1.4084
2.	वीरमपुर सैक्टर—32	316	35	3.7810	रामवती पत्नी रविपाल व विकेश कुमार पुत्र रविपाल नि0 ग्राम वीरमपुर पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1 / 9 भाग	0.4201
3.	वीरमपुर सैक्टर—32	210	343	2.3100	लखमीरी पत्नी रामवीर नि० ग्राम अट्टा गुजरान, तहसील सदर, जिला गौतमबुद्धनगर	2 / 15 भाग	0.3080
4.	वीरमपुर सैक्टर—32	234	349	1.4550	कासिम अली पुत्र मलखान निवासी ग्राम नगला हाण्डा माजरा कुरैब पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1 / 12 भाग	0.1213
5.	वीरमपुर सैक्टर—32	9	52	3.7330	राजकुमार पुत्र बृहमपाल सिंह निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह0 जेवर जिला गोतमबुद्धनगर	1/20 भाग	0.1865
6.	वीरमपुर सैक्टर—32	9	52	3.7330	शैलेन्द्र कुमार पुत्र बृहमपाल सिंह निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1/20 भाग	0.1866
7.	वीरमपुर सैक्टर—32	9	52	3.7330	कृष्ण कुमार पुत्र बृहमपाल निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर० व तह० जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1 / 20 भाग	0.1866
8.	वीरमपुर सैक्टर—32	9	52	3.7330	शिव कुमार पुत्र बृहमपाल सिंह निवासी ग्राम चकवीरमपुर पर0 व तह0 जेवर जिला गौतमबुद्धनगर	1/20 भाग	0.1866
9.	करौली बांगर सैक्टर—29	480	353	3.9280	रामवीर सिंह पुत्र रामचन्द निवासी नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर	में से	0.5604
10.	तिरथली सैक्टर–28	165	15	0.9040	सिद्धार्थ शर्मा पुत्र दिनेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम मौ० गुलिस्ता कालोनी कस्बा रबूपुरा तहसील जेवर	3 / 24 भाग	0.1130
11.	तिरथली सैक्टर—29	302	270 324 329	0.2630 0.8050 1.6790	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्यौदान सिंह नि० नगला नरायन सिंह मजरा करौली बांगर	1/24 भाग 1/24 भाग में से	0.0109 0.0336 0.1284
12.	तिरथली सैक्टर—29	302	324	0.8050	रौतान सिंह पुत्र शीशपाल नि० नगला नरायन सिंह मजरा करौली बांगर	5/24 भाग	0.1677
13.	तिरथली सैक्टर—29	191	254	0.5980	पंकज पुत्र पुरूषोत्तमदास मकान नं0 241 सैक्टर—30 फरीदाबाद	1 / 8 भाग	0.0747
14.	तिरथली सैक्टर–29	308	329	1.6790	संजीव गोयल पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी बी – 27 महाराणा प्रताप इन्कलेव पीतमपुरा दिल्ली	में से	0.4829
15.	तिरथली सैक्टर—29	308	329	1.6790	जितेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी नगला नरायण सिंह करौली	में से	0.0843
16.	तिरथली सैक्टर–29	308	329	1.6790	तेजवीर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नगला नरायण सिंह माजरा करौली बांगर	में से	0.1342
17.	तिरथली सैक्टर–29	308	329	1.6790	जसवीर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नगला नरायण सिंह माजरा करौली बांगर	में से	0.1341
18.	तिरथली सैक्टर—29	302	324	0.8050	श्यौदान सिंह निवासी नगला नरायण सिंह माजरा करौली बांगर	1/2	0.4025
19.	तिरथली सैक्टर–29	204	446	3.0280	महावीर पुत्र चोखे सिंह निवासी खेडा तिरथली	में से	0.6308
20.	तिरथली सैक्टर—29	204	446	3.0280	हरेन्द्र सिंह पुत्र श्यौदान सिंह व राजपाली देवी पत्नी श्यौदान सिंह निवासी खेडा तिरथली	में से	0.1255

पदम सिंह पुत्र चोखे सिंह निवासी खेडा तिरथली उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर यमुन रक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

निवासी खेडा तिरथली

संजय पुत्र गिर्राज व राजेन्द्री पत्नी

गिर्राज निवासी खेडा तिरथली

1 / 8 भाग

1/8 भाग

0.3785

0.3785

### अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR सिजुआ, डाक : डुमुडुमा, भुवनेश्वर -751019

54वीं रैंक हासिल की है।

रिक्ति सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा में नियमित आधार

पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं विज्ञापन संख्या एम्स/भृवनेश्वर/भर्ती/2023/990/1230

दिनांक 10 जून 2023 पदों

विज्ञापित पद—लेखा अधिकारी, बाल मनोवैज्ञानिक, उप चिकित्सा अधीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ (सहायक आहार प्रबंधक), वरिष्ठ प्रोग्रामर (विश्लेषक), उपशिक्षक, नैदानिक प्रशिक्षक

विभागों, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, पात्रता मानदंड और अन्य नियमो एवं शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट https://aiimsbhubaneswar.nic.in देखें ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स भूवनेश्वर



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR सिजुआ, डाक : डुमुडुमा, भुवनेश्वर-751019

#### रिक्ति सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा में नियमित आघार पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं

रोलिंग विज्ञापन संख्या एम्स/भृवनेश्वर/भर्ती/संकाय भर्ती/ 2022/941/4643 दिनांक 30.08.2021 के क्रम में रिक्ति अधिसूचना संख्या एम्स/भुवनेश्वर/भर्ती/संकाय भर्ती/2022/941/ 1231 दिनांक 10 जून, 2023

विज्ञापित पद -प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर

विभागों, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, पात्रता मानदंड और अन्य नियमो एवं शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट https://aiimsbhubaneswar.nic.in देखें कार्यकारी निदेशक एम्स भुवनेश्वर

### प्रवेश सूचना

### राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सी.टी.एस. योजना में अगस्त, 2023 से प्रारम्भ हो रहे सत्र के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ट्रेड, प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि के विवरण नीचे दिए गए हैं:

	क्र. स.	ट्रेड का नाम	सीटें	प्रशिक्षण की अवधि	प्रवेश योग्यता			
	1.	हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर	216	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।			
	2.	फिजियोथेरपी तकनीशियन	60	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।			
	3.	डेंटल लैब तकनीशियन	24	2 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।			
	4.	रेडियोलॉजी तकनीशियन	20	2 वर्ष	बारहवीं कक्षा परीक्षा (विज्ञान वर्ग) उत्तीर्ण हो।			
т	गर्यन विधिन्य गारमकामें में विस्त सीटों की नगनकाना नथा राखिना शक्क का							

प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटो की उपलब्धता तथा दाखिला शुल्क का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर देखें।

- 1. प्रमाण पत्र: पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/पीएसयू के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता है।
- 2. चयन प्रक्रिया : सभी सीटों पर दाखिले पहले आओ तथा पहले पाओ के आधार पर
- 3. आयु : उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2023 को कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक
- 4. आवेदन कैसे करें : उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com से प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवरणिका को रुपये 200/- का नकद भुगतान करके संस्थान से भौतिक रूप से भी लिया जा सकता है।
  - नोट: फॉर्म भरते समय रुपये 500/- का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क भी देय होगा।
- 5. छात्रवृत्ति : प्रवेश के पश्चात् आय प्रमाण पत्र रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र भारत सरकार की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने
- 6. **बस—पास सुविधा** : सरकार छात्रों को 100 रुपये प्रति माह की दर से रियायती बस-पास सुविधा प्रदान करती है, यह दिल्ली में चलने वाली सभी एसी और गैर-एसी बसों में मान्य है।
- 7. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com पर लॉग ऑन करें।
- 8. प्रवेश की अंतिम तिथि : 3 जुलाई, 2023 है ।

निदेशक

दिनांकः जून 13, 2023

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

30-34, सेवक पार्क, द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन, पिलर नं.-771 के सामने,

#### विज्ञापन सं0– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 🖫 अन्वर्ग स्व

### संक्षिप्त विज्ञापन

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के अधीन नेम्नलिखित पदों पर चयन हेतु **''ऑनलाइन आवेदन''** प्राप्त करने हेतु विस्तृत विज्ञाप भायोग की वेबसाइट <u>https://uppsc.up.nic.in</u> पर दिनांक 14.06.2023 से उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह आयोग की उक्त वेबसाइट पर जाक विस्तृत विज्ञापन तथा **''ऑनलाइन आवेदन''** हेतु दिये गये निर्देशों का सूक्ष्मता एव गहनता से अवलोकन / अध्ययन कर लें और जिस पद के लिये उनकी अईता हो

उसके लिये वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए केवल ''ऑनलाइन आवेदन'' ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए भी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशो । अनसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ऑनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 14.07.2023 ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 14.07.2023 ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक / वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि : 28.07.2023

पदों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान क्षेत्र / प्रक्षेत्र, कम्प्यूटर फोरेन्सिक क्षेत्र / प्रक्षेत्र, भौतिकशास्त्र क्षेत्र / प्रक्षेत्र, रसायनशास्त्र क्षेत्र / प्रक्षेत्र, आचार विज्ञान क्षेत्र / प्रक्षेत्र) (41-पद) (2) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र0 के अन्तर्गत खान अधिकारी (01-पद) (3) उ०प्र0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत दन्त सर्जन (174-पद) (4) उ०प्र० आयुष (आयर्वेंद्र) विभाग के अन्तर्गत प्रवक्ता (शल्य तंत्र रचना शारीर रोग निदान अग तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, द्रव्यगुण, संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त क्रिया शारीर, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, स्वस्थ्यवृत, कायचिकित्सा (127-पद) (5) उ०प्र० आयुष (होम्योपैथी) विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक एवं होम्योपेथिक आवासीय चिकित्साधिकारी (23-पद) (6) उ०प्रत आयुष (यूनानी) विभाग के अन्तर्गत यूनानी चिकित्साधिकारी (26-पर्व) (7) उ०प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग के अन्तर्गत रीडर कुल्लियात (01–पद), (8) उंoप्रंo आयुष (यूनानी) विभाग के अन्तर्गत रीडर अमराजे जिल्द व तजीनियत (01-पद), (9) उ०प्र0 **आयुष (यूनानी) विभाग के अन्तर्गत** प्रवक्ता अरबी (01-पद)

दिनांकः प्रयागराज, 13.06.2023

सचिव

### इंडस टावर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बिल्डिंग नं. 10, टॉवर ए, चतुर्थ तल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरूग्राम-122002, हरियाणा दूरभाषः +91-124-4296766, फैक्सः +91-124-4289333

ई-मेलः <u>compliance.officer@industowers.com</u> वेबसाईटः <u>www.industowers.com</u>

सूचना

#### <u>विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (''आईईपीएफ'')</u> <u>में इंडस टॉवर्स लिमिटेड\_के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण</u> यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के साथ पठित विनिधानकत

शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (''नियम'') के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। अधिनियम व नियम के अनुसार उन इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ में हस्तांतरण अनिवार्य है, जिनमें लाभांश लगातार सात साल या उससे अधिक की अवधि में भुगतान या चुकता नहीं किया गया है। उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत

रूप से जून 13, 2023 को नोटिस भेज चुकी है, जिनका लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-2016 (अंतिम लाभांश 2015-2016) से शुरू होने वाले लगातार सात वर्षों तक बकाया हैं / दावा नहीं किया गया है। हम उनसे कंपनी द्वारा भेजे जा रहे पत्राचार में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सितम्बर 14, 2023 तक उसका दावा करने का अनुरोध करते हैं। शेयरधारकों के हित में कंपनी ने, जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी कंपनी के साथ

पंजीकृत हैं, उन्हें ई-मेल भेजा है व जिन शेयरधारकों के ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, कृपयाँ ध्यान दें कि प्रक्रिया सहित आईईपीएफ में हस्तांतरित होने योग्य इस तरह के शेयरों का अपेक्षित विवरण यहां वर्णित अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उक्त वर्णित समय सीमा के भीतर श्रेयरधारकों द्वारा वैध दावे की प्राप्ति के अभाव में, कंपनी उक्त शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

इसके अलावा, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अभौतिक रूप में हस्तांतरण के लिए उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाण पत्र के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और बाद में एनएसडीएल व सीडीएसएल के साथ प्राधिकृत आईईपीएफ द्वारा खोले गए डीमैट खातों में हस्तांतरित करेगी। ऐसे मामले में उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओं) स्वयं रद्द हो जाएंगे और गैर-परिवर्तनीय माने जाएंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले ऐसे शेयरधारक, ऊपर वर्णित अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का हस्तांतरण निगमित कार्यवाही द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम

शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी ने आईईपीएफ में हस्तांतरित करने योग्य इक्विटी शेयरों की अपडेटेड सूची <u>www.industowers.com</u> वेबसाइट पर अपलोड की है इसके अतिरिक्त शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को नियमों के अनुपालन में, आईईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी

हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में अन्य लाभांश / लाभ, यदि कोई हो, तो भी आईईपीएफ में क्रेडिट किया जाएगा। आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कोई दावा और लाभांश कंपनी के विरूद्ध नहीं होगा। आईईपीएफ में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण पर, शेयरधारक नियमों के अनुसार, फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक आवेदन करके दावा कर सकते हैं। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट और आईईपीएफ की वेबसाइट <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित शेयरधारकों से एक बार फिर से, इस सूचना की प्राप्ति पर अपने लाभांश पर सितम्बर 14, 2023 तक दावा करने का अनुरोध है। उन्हें पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, रदद किए गए चेक की प्रति, पता प्रमाण की मूल प्रति और मूल गैर नकद लाभांश वारंट (यदि कोई हो) या विधिवत रूप से दायर क्षतिपूर्ति बोंड (आरटीए और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के सहित लिखित आवेदन जमा करना होगा। असफल होने पर कंपनी अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में उन शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

किसी भी पूछताछ के मामले में, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलिनियम बिल्डिंग, टॉवर बी प्लॉट 31-32, गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-50032, फोन नं +91 40 67162222 टॉल फ्री नं. 1800-309-4001 ई-मेल आईडी: <u>einward.ris@kfintech.com</u> वेबसाइट <u>www.kfintech.com</u> पर संपर्क कर सकते हैं ।

इंडस टॉवर्स लिमिटेड कृते हस्ता./ समृद्धि रोढे

मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली — 110059 व्हाट्स ऐप हेल्पलाइन : 9315138815, 011—42828067 (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) 💆

द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र (ओं) जारी करने के संबंध में सूचना के रूप में माना जाये।